



भारत सरकार, रेल मंत्रालय  
रेलवे भर्ती बोर्ड



सीईएन 02/2018 (7 वीं सीपीसी के अनुसार स्तर-1 के पद)

परीक्षा शुल्क वापसी

बैंक खाते के विवरण में सुधार की तिथि को दिनांक 10.04.2019 तक आगे बढ़ाना

रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीईएन 02/2018 के अंतर्गत स्तर-1 के पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क वापस करने की पहल की थी।

उन उम्मीदवारों को जिनके खाता में परीक्षा शुल्क वापसी विफल हो गई या खाता विवरण नहीं होने के कारण परीक्षा शुल्क वापसी नहीं की जा सकी, उनके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों पर एक अद्यतन बैंक खाता लिंक दिनांक 22.03.2019 से दिनांक 28.03.2019 तक प्रदान की गई थी, ताकि ऐसे उम्मीदवारों द्वारा बैंक खाता विवरण सही/ प्रदान किया जा सके।

तथापि यह देखा गया है कि बैंक खाते के विवरण सही/ प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार अभी तक शेष है।

अतः एक विशेष मामले के रूप में रेलवे भर्ती बोर्ड ने बैंक खाते के विवरण को प्रस्तुत/ सही करने के लिए अंतिम तिथि को दिनांक 10.04.2019 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उक्त तिथि के पश्चात् उम्मीदवार बैंक खाते के विवरण को संशोधित/ प्रदान नहीं कर पाएँगे तथा धन वापसी की विफलता के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होंगे।

*इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि दिनांक 10.04.2019 के भीतर रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई गई अद्यतन बैंक खाता लिंक के माध्यम से अपने बैंक खाते के विवरण को सही/ प्रदान करने के लिए इस अंतिम अवसर का उपयोग करें।*

कृपया ध्यान दें कि सही आईएफएससी कोड और खाता संख्या के साथ अपना बैंक खाता विवरण अविलंब प्रदान करें तथा गलत बैंक विवरणों के कारण धन वापसी की विफलता संबंधी किसी भी पत्राचार पर रेलवे भर्ती बोर्ड विचार नहीं करेंगे।

दिनांक : 04.04.2019

अध्यक्षगण  
रेलवे भर्ती बोर्ड